



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30—अप्रैल 5, 2013 (चैत्र 9, 1935)

No. 13]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30—APRIL 5, 2013 (CHAITRA 9, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 8 मार्च 2013

सं. ए-60011/03/2013-आर टी आई सेल (प्रशा.)--सूचना का
अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) की शर्तों के अनुसार संघ
लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से
उनके नाम के सामने दर्शाई गई विषय वस्तु के संबंध में एतद्वारा के.
लो. सू. अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है :--

क्र. सं.	विषय वस्तु	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम	अपीलीय प्राधिकारी का नाम
1.	भर्ती-VI अनुभाग से संबंधित सभी सूचना का अधिकार संबंधी मामले।	सुश्री इन्द्राणी गुप्ता, उप सचिव (भ.-VI)	सुश्री मंजू कुमार, संयुक्त सचिव (भ.II)
2.	भ.वि. (आई एफ सी) अनुभाग से संबंधित सभी सूचना का अधिकार संबंधी सभी मामले।	श्री अंशुमन शर्मा, उप सचिव भ.वि. (आई एफ सी)	सुश्री मंजू कुमार, संयुक्त सचिव (भ.II)

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 मार्च 2013

सं. डीपीपर्स-1/2013/0026/3/156/2010--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर श्री ए. के. त्रिपाठी दिनांक 23.02.2013 के अपराह्न से पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मनीष किशोर सिन्हा
उप निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 मार्च 2013

सं. पी.तीन-1/2012-कार्मिक(स.क.)--इस महानिदेशालय के समसंख्यक नोटिस दिनांक 16.01.2013 के तहत श्री अनुज कुमार सिंह, सहायक कमाण्डेंट (ईरला-7584), ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल, इलाहाबाद को मेडिकल ग्राउण्ड पर सेवा से अशक्त (Invalidation from Service) करने संबंधी नोटिस सुपुर्द किए जाने से एक महीने की अवधि समाप्त होने के उपरान्त उन्होंने दिनांक 19.02.2013 (अपराह्न) को अपने पद

से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 19.02.2013 (अपराह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक

सं. ओ.दो-1175/74-कार्मिक-डी.ए.-1--श्री गोपाल दास पेवाल, पुलिस महानिरीक्षक (संभरण), महानिदेशालय, के.रि.पु.बल, नई दिल्ली (ईरला सं. : 1269), जिनकी "ड्रग इन्ड्यूस्ड हेपेटिक फेलियर" के कारण दिनांक 06.03.2013 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है, को खेद सहित अधिसूचित किया जाता है। तदनुसार, उन्हें दिनांक 06.03.2013 (अपराह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

सं. ओ.दो-3681/06-कार्मिक(एम.ओ.ज.)--कम्पोजिट अस्पताल, के.रि.पु. बल, इलाहाबाद के डॉ. पी. आर. कुशवाहा, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (ईरला सं. 6722), जो बक्कल कारसीनोमा (Buccal Carcinoma) से पीड़ित थे, का दिनांक 03.01.2013 को देहांत होने के कारण इस बल की नफरी से उनका नाम उक्त तिथि से अर्थात् दिनांक 03.01.2013 (अपराह्न) से हटया गया है।

बी. एस. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 11 मार्च 2013

सं. डी.पाँच-1/2013-कार्मिक(स.क.)--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 17.08.2012 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री प्रीतम सिंह, सहायक कमाण्डेंट (आई.आर.एल.ए.-7141), पी.डी. जी., के.रि.पु. बल ने दिनांक 31.01.2013 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 31.01.2013 (अपराह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक

सं. डी.पाँच-1/2013-कार्मिक(स.क.)--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 20.10.2012 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री मनीष कुमार, सहायक कमाण्डेंट (आई.आर.एल.ए.-7961), 22 बटालियन, के.रि.पु. बल ने दिनांक 28.02.2013 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 28.02.2013 (अपराह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 मार्च 2013

सं. ई-16015/टी.वी.-भा.पु.से./2013/कार्मिक-1/95--राष्ट्रपति, श्री टी. विक्रम भा.पु.से. (केरल : 1998) को दिनांक 04.03.2013 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नई दिल्ली में उप महानिरीक्षक के पद पर वेतन बैंड-4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,900/- में नियुक्त करते हैं।

हस्ता./-अपठनीय
महानिदेशक/के.औ.सु.ब.

दिनांक 13 मार्च 2013

सं. ई-32015(4)/1/एसी-एलडीसीई-2012/कार्मिक-1/100--राष्ट्रपति, सहायक कमाण्डेंट (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2012) के अन्तर्गत भर्ती हुए निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित ब्यौरा के अनुसार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण अकादमी निसा हैदराबाद में (सातवाँ बैंच) प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने की तिथि से के.औ.सु.ब. में सहायक कमाण्डेंट/कार्यकारी (समूह 'क') के पद पर नियुक्त करते हैं। इन अधिकारियों को प्रशिक्षण अकादमी (निसा हैदराबाद) में उसी तिथि से वेतन व भत्ते प्राप्त करने के प्रयोजन से तैनात किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	संस्थान का नाम/ तैनाती का स्थान	रिपोर्ट करने की तिथि
(सर्वश्री)			
1.	रवि रंजन सिंह	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
2.	राज कुमार	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
3.	मनीष कुमार	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
4.	दिनेश कुमार	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
5.	बृज मोहन सिंह	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
6.	अभिषेक आहुजा	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
7.	राजेश कुमार धयाल	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
8.	उमेश कुमार गौतम	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
9.	मनीष चन्द्र झा	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
10.	बनवारी लाल जाट	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
11.	जगनमोय सोम	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
12.	विनय कुमार सिंह	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
13.	राकेश चन्दन	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
14.	कदम रूपेश मधुकर	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
15.	प्रेम एम जे	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)
16.	नरेश जोशी	नीसा हैदराबाद	16.02.2013 (पूर्वा.)

हस्ता./-अपठनीय
महानिदेशक/के.औ.सु.ब.

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2013

सं. 1/38/2012-प्रशा. III/35--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री बिमल कुजूर को दिनांक 12.11.2012 के आदेश सं. 4/14/2011 सी एस-1 (डी) के माध्यम से ग्रेड-I (अवर सचिव) से तदर्थ आधार पर पदोन्नत होने पर उन्हें 23.11.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राम गोपाल
अवर सचिव

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110124, दिनांक 8 मार्च 2013

सं. 17-जी.ई.-I/13-2006--श्री आर. बालासुब्रमन्यम, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा के अधिकारी दिनांक 28.02.2013 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

हस्ता./-अपठनीय
सहा. नियंत्रक
महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल
तिरुवनंतपुरम, दिनांक 13 मार्च 2013

सं. का.स्था./ह व रो/ई IV पै/000384--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुई हैं :-

नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
श्रीमती सुशीलाकुमारी अम्मा पी.	लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	28.02.2013 (अधिवर्षिता)

वी. चन्द्रशेखरन
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), आंध्र प्रदेश
हैदराबाद-500004, दिनांक 13 मार्च 2013

सं. प्रशा.-I/यू-1/4-39/2012-13/67074--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हैदराबाद ने नीचे लिखित लेखा अधिकारी को रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) वेतन बैंड के ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के साथ वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में उनके नाम के आगे बताई गई तिथि से पदोन्नत किया है :-

नाम	व.ले.अ. का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
श्री के. श्रीनिवास प्रसाद	13.02.2013 पूर्वाह्न

यह पदोन्नति के आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो तो, पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल में लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन जारी किया जाता है।

हेमा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I/यू-1/8-88/2012-13/67077--प्रधा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हैदराबाद ने नीचे लिखित सहायक लेखा अधिकारी को रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) वेतन बैंड के ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के साथ लेखा अधिकारी के रूप में उनके नाम के आगे बताई गई तिथि से पदोन्नत किया है:-

नाम	ले. अ. का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
श्री बी. त्रिनाथ राव	14.02.2013 पूर्वाह्न

यह पदोन्नति के आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो तो, पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल में लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन जारी किया जाता है।

हेमा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग)
पूर्ति तथा निपटन महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2013

सं. ए-12025/2/2013/प्रशा.-I--महामहिम राष्ट्रपति निम्नलिखित अभ्यर्थियों की संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर सहायक निदेशक (पूर्ति) ग्रेड-1, भारतीय पूर्ति सेवा के कनिष्ठ समयमान में वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/- (ग्रेड वेतन) के पद पर, पूर्ति तथा निपटन महानिदेशालय द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित नियमों व शर्तों पर स्थानापन्न रूप से अग्रिम आदेशों तक निम्नानुसार नियुक्ति करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा का वर्ष	सहायक निदेशक (पूर्ति), ग्रेड-1 के पद पर नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
(सर्वश्री)			
1.	अम्बुज शर्मा	2008	05.04.2010
2.	राज कमल	2008	07.05.2010
3.	कूटिल वरियम अजित	2008	02.06.2010
4.	दीपेश गहलोत	2009	08.04.2011

1	2	3	4
5. लक्ष्मण राव अथुकुरी	2010	12.03.2012	
6. उल्लास कुमार	2011	18.01.2013	
7. सर्वेश त्रिवेदी	2011	21.01.2013	
8. अनुज ओझा	2011	21.01.2013	
9. मुकेश मेघवाल	2011	21.01.2013	
10. विजय कुमार मीना	2011	21.01.2013	
11. राम निवास	2011	26.02.2013	

ये सभी प्रारम्भिक दो सालों के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

के. के. सक्सेना
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

फरीदाबाद-121001, दिनांक 4 मार्च 2013

सं. 2-5/2008-प्रशा. प्रथम--वनस्पति संरक्षण सलाहकार डॉ. एस. शिवराम कृष्णन को दिनांक 24.09.2012 (पूर्वा.) से 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड और 4,600/- रुपये ग्रेड पे में इस निदेशालय में नियमित आधार पर वनस्पति संरक्षण अधिकारी (कीट विज्ञान) (समूह-'ख' राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिलीप राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 8 मार्च 2013

संदर्भ : पीडी/7(4)/2012/भर्ती-IV/(एसओ/ई)/3027--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के डॉ. (श्रीमती) टीना गोयल, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'डी' पे बैंड रु. 15,600--39,100/- ग्रेड पे रु. 6,600/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'ई' पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में 01 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 11 मार्च 2013

संदर्भ : पीडी/6(1)/2012/भर्ती-III/2013/3075--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री बाबू राजन पी. वी. सहायक, विरल पदार्थ

परियोजना, मैसूर को दिनांक 04.03.2013 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 12 मार्च 2013

सं. क्रभनि/07019/भर्ती/16415--निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्रीमती वी. एम. मोरूडकर, वरिष्ठ भंडारी, [वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-], केन्द्रीय भंडार एकक, क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई को सहायक भंडार अधिकारी के पद पर वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन 4,800/- में, भंडार एकक, क्रय और भंडार निदेशालय, भारी पानी संयंत्र, कोटा में दिनांक 27 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

कैथरीन राज
प्रशासनिक अधिकारी-III

कम्पनी मामले मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चेतन जेन्थे एण्ड कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 12 मार्च 2013

सं. 560(5)/26646--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चेतन जेन्थे एण्ड कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जयपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/353--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	010056	मैसर्स वी. एस. लाईस्योर प्राईवेट लिमिटेड
2.	023831	मैसर्स सनसिटी होमक्रॉफ्ट फर्निशिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	034487	मैसर्स श्री महावीर क्रिटिकल केयर प्राईवेट लिमिटेड
4.	025688	मैसर्स सुनीता एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
5.	026042	मैसर्स बनरासा लाईफस्टाईल बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
6.	024164	मैसर्स देव कृपा हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	032012	मैसर्स प्रोसपर लोजिस्टिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
8.	028336	मैसर्स टाइटेनियम इन्फो टेक प्राईवेट लिमिटेड
9.	024793	मैसर्स श्री गणेश कृपा कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
10.	029580	मैसर्स अनन्तश्री ट्रेडमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
11.	035033	मैसर्स राजपूताना कोटिन्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	026010	मैसर्स वरुण लोजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
13.	011443	मैसर्स पारीक आईस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
14.	023067	मैसर्स सुविज्ञानम इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड
15.	024382	मैसर्स श्रीनाथ प्रोपकॉन प्राईवेट लिमिटेड
16.	022848	मैसर्स श्रद्धा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	030240	मैसर्स स्वास्तिक पिरामिड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

इमरान ए. सिद्दिकी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार एवं सहायक शासकीय समापक
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 15 मार्च 2013

सं. कर/2011/560(5)/3388--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	008837	मैसर्स आयन स्टील एण्ड हार्डवेयर ट्रेड वैलफेयर ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड
2.	205795	मैसर्स परफैक्ट पोलिपैक प्राईवेट लिमिटेड
3.	019663	मैसर्स प्रीपैक पैकेजिंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	173173	मैसर्स क्राफ्ट मर्केन्टाईल प्राईवेट लिमिटेड
5.	120463	मैसर्स वैवी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	180315	मैसर्स सेन्य प्रोजेक्ट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	194466	मैसर्स मनयोगी फाईनान्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
8.	126717	मैसर्स कनेक्ट कैपिटल इण्डिया होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	155058	मैसर्स राज आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
10.	033759	मैसर्स जैन कारपोरेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
11.	187908	मैसर्स एडम एडवाइजरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
12.	184293	मैसर्स आईडियावेंट कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड
13.	149936	मैसर्स एलियन्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	026590	मैसर्स बीसीए एन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड
15.	193694	मैसर्स आगापे बॉयो-सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	187041	मैसर्स डीएनजी श्री फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	145717	मैसर्स भारतीय होल्डिंग्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
18.	149935	मैसर्स एलियन्स प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
19.	116071	मैसर्स लैण्डमार्क शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
20.	186514	मैसर्स यूएसआर टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
21.	204610	मैसर्स एबीओ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
22.	150696	मैसर्स टेक्नोकलीन हाईड्रोजेट सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
23.	090182	मैसर्स डी एण्ड ए मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
24.	195911	मैसर्स आईसीएन नॉनो मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
25.	195969	मैसर्स ओट्रोडाइम टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
26.	002044	मैसर्स दि बोम्बे एसोसिएटिड न्यूजपेपर्स प्राईवेट लिमिटेड	56.	164609	मैसर्स रोशमित इन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड
27.	167059	मैसर्स एआरईएस इन्फ्राडेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	021305	मैसर्स इंडल्स (एजेन्सीज) प्राईवेट लिमिटेड
28.	110792	मैसर्स विद्या इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	58.	182111	मैसर्स अक्श कारपोरेट रिसर्च एण्ड इन्फोर्मेशन प्राईवेट लिमिटेड
29.	127509	मैसर्स शोन्स हैल्थकेयर लिमिटेड	59.	082491	मैसर्स ओएनवाइएक्स ट्रेवल्स एण्ड टूरस प्राईवेट लिमिटेड
30.	186428	मैसर्स मदर ग्राफिक सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	60.	157831	मैसर्स सागर फैसिलिटी मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
31.	197366	मैसर्स इसार टेलीकॉम टॉवर होल्डिंग्स लिमिटेड	61.	101951	मैसर्स एमसी क्लेलेण्ड एनवायरो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
32.	188128	मैसर्स आइकंसलटेक डाय मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	62.	174458	मैसर्स भवानी एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड
33.	180126	मैसर्स रिलाइएबल कलर एण्ड स्ट्रोक्स प्राईवेट लिमिटेड	63.	208135	मैसर्स फास्टकिड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
34.	176873	मैसर्स विनिमय मर्केन्डाईजिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	64.	140112	मैसर्स साई राज इन्फोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
35.	132707	मैसर्स अजैक्स नॉलेज सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	65.	064434	मैसर्स अंकुर ग्राफिक्स एण्ड एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
36.	178687	मैसर्स मैजिक ज्वैलरी प्राईवेट लिमिटेड	66.	186813	मैसर्स ऑस्ट्राल कम्पोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	174441	मैसर्स एक्वा अलायंसेस मार्केटिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	67.	157313	मैसर्स एक्स सॉफ्टवेक प्राईवेट लिमिटेड
38.	178537	मैसर्स आयडिया मैनेजमेन्ट एण्ड फाइनेन्शियल कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	68.	092140	मैसर्स वीएसएल सिस्टम्स एण्ड कंट्रोलस प्राईवेट लिमिटेड
39.	183185	मैसर्स ट्रेगोनी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	69.	156475	मैसर्स त्रिमिति विजुअल्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	176693	मैसर्स सिव्यू मल्टीट्रेड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	70.	162922	मैसर्स प्रणव रूचिका इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	055664	मैसर्स हैलो वीडियो प्राईवेट लिमिटेड	71.	204896	मैसर्स तलोजा इंटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	148702	मैसर्स पेयबीट इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	72.	174369	मैसर्स हैडसैट जेम्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	182505	मैसर्स मंत्रा मेडिकल सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	73.	180805	मैसर्स संघवी एयरलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	187226	मैसर्स अपेक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	74.	165195	मैसर्स ई-सिटी टाऊनशिप डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	166822	मैसर्स टर्मिनस रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड	75.	188560	मैसर्स एचपी एनवायरो केयर प्राईवेट लिमिटेड
46.	194666	मैसर्स सीवेज मेटासोर्स प्राईवेट लिमिटेड	76.	186232	मैसर्स के. रियल सॉफ्टवेक प्राईवेट लिमिटेड
47.	128470	मैसर्स यूनितेक इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	77.	177587	मैसर्स स्पेसकॉम इनोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	188092	मैसर्स वासन रेसिडेन्सी नासिक प्राईवेट लिमिटेड	78.	185093	मैसर्स अकूल कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
49.	181819	मैसर्स जुकबॉक्स मरीन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	79.	189084	मैसर्स ओशनिक स्पेस प्राईवेट लिमिटेड
50.	091915	मैसर्स सोलर मशीन टूल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	80.	003895	मैसर्स बोम्बे ट्रेडिंग एण्ड फाइनेन्सिंग कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
51.	183085	मैसर्स पी. डी. इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	81.	189480	मैसर्स माईक्रोस्पेस कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	192946	मैसर्स बच्चूस इन्टरटेनमेंट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	82.	079493	मैसर्स गीता सेफ डिपोजिट वॉल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	189187	मैसर्स एचपी प्रोसेर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	83.	168747	मैसर्स रिलायन्स बॉयोफ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	204897	मैसर्स वालूज इंटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	84.	166971	मैसर्स ईशा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	204893	मैसर्स लातूर इंटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
85.	183434	मैसर्स फोर्टिलैब (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
86.	166911	मैसर्स एफिशिएन्ट कॉमर्शियल्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	195510	मैसर्स सी-जेड क्रैन्स एण्ड हैण्डलिंग इक्विपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	168750	मैसर्स रिलायन्स डायग्नोस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	076747	मैसर्स सिम्बा टूर्स एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	188205	मैसर्स मैनेज्ड सर्विसेस इनवायरमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
91.	176694	मैसर्स स्काइव्यू ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
92.	063964	मैसर्स केलकर प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	137494	मैसर्स भावे प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
94.	211582	मैसर्स फेडेक्स एक्सप्रेस सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
95.	111401	मैसर्स शैफाली फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
96.	084885	मैसर्स ओम हॉस्पिटल एण्ड सिक चिल्ड्रन प्राईवेट लिमिटेड
97.	076948	मैसर्स नेकी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	142840	मैसर्स माली मीडिया एण्ड एन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
99.	123247	मैसर्स अस्ट्रा इन्वोरेन्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
100.	139284	मैसर्स फैंबूल्स फैशनस प्राईवेट लिमिटेड
101.	056951	मैसर्स नूतन यार्न टिक्स्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	162938	मैसर्स दुमस माईनिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
103.	159240	मैसर्स रेव हील फाइटोकैम प्राईवेट लिमिटेड
104.	109426	मैसर्स झेन्का एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड
105.	190665	मैसर्स अरविंदर रिसोर्ट्स एण्ड स्पास प्राईवेट लिमिटेड
106.	182452	मैसर्स इझाईओ एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
107.	059853	मैसर्स बिग गाय कूरिअर प्राईवेट लिमिटेड
108.	123803	मैसर्स मोटेक सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
109.	171562	मैसर्स टिकोना डिजिटल होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	196734	मैसर्स एज ओशनलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	080516	मैसर्स नागपुर केबल वीजन प्राईवेट लिमिटेड
112.	113029	मैसर्स हेक्सा फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
113.	073110	मैसर्स शर्मिग्रो फायनान्शियल एण्ड मैनेजमेन्ट कंस्लटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	176700	मैसर्स ओम पाईल कापॉरेट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
115.	170763	मैसर्स आइएनजी नॉलेज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
116.	187323	मैसर्स मानन एमिटी रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
117.	164934	मैसर्स स्विजरा फार्माटिक प्राईवेट लिमिटेड
118.	042651	मैसर्स विनायक लैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	209872	मैसर्स टिस्या एसेट एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
120.	187994	मैसर्स प्रोटेन प्लान प्राईवेट लिमिटेड
121.	109462	मैसर्स रूशी हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
122.	093232	मैसर्स बेस्टलिक फिनट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
123.	078638	मैसर्स बलानी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	170966	मैसर्स एस्सार पॉवर छत्तीसगढ़ प्राईवेट लिमिटेड
125.	192195	मैसर्स एम. एण्ड एम. मैट्रोफ्लैक्स जिम प्राईवेट लिमिटेड
126.	172449	मैसर्स बसंत मर्कैटाईल प्राईवेट लिमिटेड
127.	205880	मैसर्स रोशनी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
128.	174621	मैसर्स शिपको लॉजीस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
129.	203929	मैसर्स डिजाईनसूत्र एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
130.	156676	मैसर्स आई. एस. के. ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
131.	211727	मैसर्स फोकसराईट एशिया पैसिफिक रिसर्च एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
132.	100086	मैसर्स तपस्या ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
133.	173127	मैसर्स रियल ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
134.	100989	मैसर्स एडवान्सड फाइबर कॉम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
135.	166446	मैसर्स रिलायन्स लॉजिस्टिक्स पार्क (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड
136.	172448	मैसर्स आकार मर्कैटाईल प्राईवेट लिमिटेड
137.	171359	मैसर्स ई-मैन गार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	166447	मैसर्स रिलायन्स लॉजिस्टिक पार्क (हरियाणा) प्राईवेट लिमिटेड
139.	161582	मैसर्स संघवी स्टार ज्वैलरी प्राईवेट लिमिटेड
140.	171303	मैसर्स मार्डन इंडिया रियल्टी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
141.	146850	मैसर्स एचटीसी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
142.	013434	मैसर्स पारसन्स एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	172.	024523	मैसर्स माँ श्री कर्नी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
143.	137905	मैसर्स ग्रेट सर्कल एडवर्जस प्राईवेट लिमिटेड	173.	167530	मैसर्स थ्रिज पिक्चर्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
144.	116833	मैसर्स एडम्स होटल प्राईवेट लिमिटेड	174.	157269	मैसर्स अर्बन सेज प्राईवेट लिमिटेड
145.	177102	मैसर्स इनफिनिटी क्लोदिंग प्राईवेट लिमिटेड	175.	127495	मैसर्स इंडस्ट्रीयल डिस्ट्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
146.	188776	मैसर्स पारलेश्वर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	176.	128669	मैसर्स हाईटेक क्लब.कॉम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
147.	172279	मैसर्स दिवाकर मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	177.	178356	मैसर्स हाई-डिजाईन्स सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
148.	184081	मैसर्स प्रिन्सटोन ब्ल्यू टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड	178.	185057	मैसर्स पदमन कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
149.	168806	मैसर्स अर्बन बिजनेस मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	179.	184992	मैसर्स लाईफस्टाईल टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
150.	026736	मैसर्स नीलम होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	180.	186340	मैसर्स मैट्रो टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
151.	162757	मैसर्स माईडबेब आईटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	181.	201251	मैसर्स रिलायन्स घर प्राईवेट लिमिटेड
152.	049177	मैसर्स डैक्कन नाइलॉन प्राईवेट लिमिटेड	182.	090851	मैसर्स हिललैण्ड एस्टेट्स लिमिटेड
153.	127477	मैसर्स रोसा पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	183.	177174	मैसर्स रिलायन्स सोलर प्राईवेट लिमिटेड
154.	165598	मैसर्स टीसीक्यू ट्रैंगल कंस्टलेटन्स प्राईवेट लिमिटेड	184.	134686	मैसर्स सप्पा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
155.	016085	मैसर्स विशाल इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	185.	184993	मैसर्स इनश्योर टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
156.	002778	मैसर्स कर्नाड एण्ड बेलारे लिमिटेड	186.	201341	मैसर्स रिलायन्स हैबीटैट प्राईवेट लिमिटेड
157.	176678	मैसर्स वैन्चुरा इन्स्टीच्यूशनल इक्विटीज प्राईवेट लिमिटेड	187.	201508	मैसर्स रिलायन्स आश्रय प्राईवेट लिमिटेड
158.	071782	मैसर्स हाई-टेक मोड्यूलर सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	188.	065128	मैसर्स टेक 1 एवी प्राईवेट लिमिटेड
159.	164401	मैसर्स कूपसोल फाइनान्शियल टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड	189.	884994	मैसर्स रूरल टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	175416	मैसर्स आर्टरिस इन्श्योरेन्स प्राईवेट लिमिटेड	190.	177172	मैसर्स रिलायन्स पोलिसिलिकॉन प्राईवेट लिमिटेड
161.	124365	मैसर्स रिलाइएबल पॉवर एण्ड एनर्जी रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड	191.	187505	मैसर्स फिल्म ट्री मोशन पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
162.	197055	मैसर्स लाईफस्टाईल बैवरेजिस प्राईवेट लिमिटेड	192.	185020	मैसर्स स्टारलेट टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
163.	175392	मैसर्स सयी फाइनान्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	193.	118617	मैसर्स साऊथ एशिया मरीन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
164.	165019	मैसर्स ग्रीनरी पॉवर जनरेशन प्राईवेट लिमिटेड	194.	152069	मैसर्स संजय कोचिंग प्राईवेट लिमिटेड
165.	158323	मैसर्स अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	195.	124214	मैसर्स ज़ियन टेक्नोलोजिस एण्ड सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
166.	165464	मैसर्स अर्बन टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड	196.	165606	मैसर्स मातृशीर्ष लैण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
167.	047446	मैसर्स आरके ग्रीन वैली हिल्स प्राईवेट लिमिटेड	197.	201492	मैसर्स रिलायन्स हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
168.	121683	मैसर्स एलपाईन मीडिया एण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	198.	027841	मैसर्स अमिशेफ इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
169.	034876	मैसर्स सुराना ट्रान्सपोर्ट (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड	199.	177173	मैसर्स रिलायन्स सोलर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
170.	096643	मैसर्स कैनेडियन प्योर बैवरेजिस प्राईवेट लिमिटेड	200.	041963	मैसर्स फ्यूरेक्स स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
171.	119504	मैसर्स एशिया वीजन एन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	201.	057643	मैसर्स लेक वुड कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
			202.	177171	मैसर्स रिलायन्स फोटो वोलटेक प्राईवेट लिमिटेड
			203.	201454	मैसर्स रिलायन्स सिटीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
204.	186457	मैसर्स स्काईब्ल्यू टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
205.	184967	मैसर्स पिंकी टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
206.	135636	मैसर्स सी. के. शैल्टर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
207.	177099	मैसर्स सिंधुदुर्ग सेज प्राईवेट लिमिटेड
208.	157232	मैसर्स अर्बन सेज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
209.	183799	मैसर्स सोफिन्टर पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
210.	080760	मैसर्स दमन गंगा पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
211.	163569	मैसर्स जेएमवी स्टडी ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
212.	181734	मैसर्स वीएसए फायनान्शियल कंसल्टिंग एण्ड एडवायजरी प्राईवेट लिमिटेड
213.	212714	मैसर्स इनस्पयरेशन कॉफी प्राईवेट लिमिटेड
214.	187428	मैसर्स चिनाब प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
215.	111139	मैसर्स साई फ्लावर्स एण्ड ब्लूम्स प्राईवेट लिमिटेड
216.	190892	मैसर्स एकदंत टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
217.	164819	मैसर्स अर्बन एस्टेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
218.	074593	मैसर्स प्रिन्स रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	181974	मैसर्स ओरिअन आर्ट-टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
220.	157017	मैसर्स बी ए ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
221.	213244	मैसर्स दिव्यशुभ रियलटेक प्राईवेट लिमिटेड
222.	136771	मैसर्स वंडरिंग ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
223.	063947	मैसर्स ट्रिटॉन रूल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
224.	166496	मैसर्स वनलस ऑटो सिक्युरिटी प्राईवेट लिमिटेड
225.	182837	मैसर्स कोमो फर्नीचर्स प्राईवेट लिमिटेड
226.	190490	मैसर्स डिक्नेसन मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
227.	187637	मैसर्स पाबर्ती प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
228.	132881	मैसर्स ऑटोकोप व्हील्स अप्लायन्सेस प्राईवेट लिमिटेड
229.	193890	मैसर्स अदिति वैल्थ मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
230.	133106	मैसर्स डुमेर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
231.	075108	मैसर्स नवरंग प्रिमायसेस प्राईवेट लिमिटेड
232.	212954	मैसर्स सैफी एजूकेशनल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
233.	183418	मैसर्स वीकेयर एलीवेटर एण्ड इंजीनियरिंग पनी प्राईवेट लिमिटेड
234.	172879	मैसर्स अर्बन डेवलपर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
235.	163256	मैसर्स ठाणे बेलापुर इंडस्ट्रीज पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
236.	101075	मैसर्स गिरीश बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
237.	200026	मैसर्स निशे कार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
238.	169505	मैसर्स राजदा एण्ड तेजल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
239.	179794	मैसर्स मनीयॉक एडवायजरी प्राईवेट लिमिटेड
240.	185527	मैसर्स सनविंड टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
241.	187438	मैसर्स तप्ती प्रिमाईसेस प्राईवेट लिमिटेड
242.	183287	मैसर्स सार्थ टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
243.	103735	मैसर्स एनकाॅस राईटिंग इन्स्ट्रूमेंट प्राईवेट लिमिटेड
244.	155739	मैसर्स कार्डियो-रिदम मेडिकल डिवायसेस प्राईवेट लिमिटेड
245.	205519	मैसर्स हैलियस एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
246.	168698	मैसर्स स्पैक्ट्रा पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
247.	216826	मैसर्स टूववर्ल्ड टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड
248.	142371	मैसर्स बान्द्रा वेस्ट प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड
249.	182109	मैसर्स क्लासिक टेरेन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
250.	181947	मैसर्स निशाम इंडस्ट्रीयल कम्पलैक्स प्राईवेट लिमिटेड
251.	085325	मैसर्स एस्पी ला-मोड होम्स प्राईवेट लिमिटेड
252.	155477	मैसर्स आर. परेश एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
253.	065721	मैसर्स विकिंग वीडियो प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
254.	115317	मैसर्स अनिश लेजर एण्ड स्पोर्ट्स टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
255.	176753	मैसर्स उदय क्वारी वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
256.	185410	मैसर्स अर्बन इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क प्राईवेट लिमिटेड
257.	161329	मैसर्स सनराईज इंटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
258.	105049	मैसर्स बिंड रिवर फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
259.	026547	मैसर्स वैद्य एण्ड वैद्य ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
260.	185041	मैसर्स इक्शू ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
261.	159721	मैसर्स एक्सपोर्टिक गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
262.	063666	मैसर्स व्हाइट फील्ड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
263.	185412	मैसर्स उर्जीत कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
264.	030457	मैसर्स सार लिक्वर्स प्राईवेट लिमिटेड
265.	037960	मैसर्स ट्रायडन्ट मोड्यूलर टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
266.	179377	मैसर्स सुभगमी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	298.	213260	मैसर्स अम्स गोप्रीन प्राईवेट लिमिटेड
267.	161330	मैसर्स अँकमे टी रूमस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	299.	184450	मैसर्स धुले क्रिटीकल केयर एन्ड ट्रॉमा सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
268.	161331	मैसर्स सनराइज फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड	300.	173463	मैसर्स धर्मनाथ इन्फा एन्ड एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
269.	187488	मैसर्स टेलेक्स पॉवर प्राईवेट लिमिटेड	301.	034720	मैसर्स सेक्यू फॉर्मा प्राईवेट लिमिटेड
270.	197056	मैसर्स टॉप विजील सेक्युरिटी प्राईवेट लिमिटेड	302.	160156	मैसर्स सीएनएस ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
271.	205494	मैसर्स अल्ट्रा एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	303.	182705	मैसर्स अंबेश्वरी बिल्डटेक एण्ड फॉर्म्स प्राईवेट लिमिटेड
272.	196980	मैसर्स टूमी रिटेल प्राईवेट लिमिटेड	304.	182475	मैसर्स निर्माण श्री प्रकाश क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
273.	172735	मैसर्स मुंबई ट्रान्सपोर्ट इन्फॉस्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	305.	047558	मैसर्स रजनीकांत कन्सट्रूशन प्राईवेट लिमिटेड
274.	178001	मैसर्स रत्रकलश कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	306.	155704	मैसर्स वोयाजर इक्विटी एंडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
275.	097309	मैसर्स सुशरूपा हेल्थ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	307.	172503	मैसर्स ब्लुस्काय ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड
276.	050038	मैसर्स अशोक पवार ऑरचिटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	308.	182949	मैसर्स मील ओ व्हील प्राईवेट लिमिटेड
277.	166098	मैसर्स रिलायंस अपस्ट्रिम प्राईवेट लिमिटेड	309.	176734	मैसर्स रिलायंस कौव्हेरी एक्सप्लोकसन एन्ड प्रॉडक्सन प्राईवेट लिमिटेड
278.	184990	मैसर्स सिशोर ट्रेक्सटॉईल प्राईवेट लिमिटेड	310.	185327	मैसर्स यायीन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
279.	185400	मैसर्स भद्रक्स कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	311.	035077	मैसर्स संझगीरी कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
280.	159700	मैसर्स काडेन डिजाइन सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	312.	187121	मैसर्स थिंक अहेड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
281.	116205	मैसर्स एन वी वेलवेस प्राईवेट लिमिटेड	313.	158839	मैसर्स विकास गायतोंडे डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड
282.	187427	मैसर्स वर्धा प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	314.	156749	मैसर्स प्रोग्रेसिव स्टॉफिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
283.	198966	मैसर्स जय स्वामिनारायण रेस्टोरेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	315.	166918	मैसर्स जिनेश्वर रियल्टर प्राईवेट लिमिटेड
284.	146581	मैसर्स मेघराम एग्रो ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	316.	168260	मैसर्स चितामनी कन्सट्रक्सन्स एन्ड फॉर्म्स प्राईवेट लिमिटेड
285.	173209	मैसर्स एडॉन प्रोक्टीव एडवरटायजिंग प्राईवेट लिमिटेड	317.	164293	मैसर्स जिनेश्वर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
286.	203478	मैसर्स इफाटर एचडिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	318.	190027	मैसर्स नोवेल इंटेरियल डिजाइनर्स प्राईवेट लिमिटेड
287.	173499	मैसर्स युटिलिटी रीयल्टी फॉर्म प्राईवेट लिमिटेड	319.	137579	मैसर्स फ्राईट लाइन्स (इंटरनेशनल) प्राईवेट लिमिटेड
288.	182992	मैसर्स ग्रीन बैली एंग्रीकलचर प्राईवेट लिमिटेड	320.	162611	मैसर्स इकस्टेसी रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
289.	194907	मैसर्स निर्वाण बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	321.	191565	मैसर्स आयप्रोवा लॅब्स प्राईवेट लिमिटेड
290.	173905	मैसर्स डेक्कन विंड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	322.	167100	मैसर्स गुंजवाडा सिलीकॉन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
291.	081731	मैसर्स लाईन-एक्स-पोर्ट इन्टरनेशनल लिमिटेड	323.	179379	मैसर्स विश्वामुख ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
292.	124063	मैसर्स निओ डेटाटेक इन्फोविजन प्राईवेट लिमिटेड	324.	208899	मैसर्स आदित्य जेवेल प्राईवेट लिमिटेड
293.	181382	मैसर्स फेमसेल लिमिटेड	325.	188293	मैसर्स याशिता इस्जीम प्राईवेट लिमिटेड
294.	206930	मैसर्स ज्युपिटर ऑफशोर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	326.	168451	मैसर्स लोधा बिल्ड क्रिएशन प्राईवेट लिमिटेड
295.	137042	मैसर्स जीडीआर इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड			
296.	022505	मैसर्स गिडवानी सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड			
297.	178995	मैसर्स श्रीवास्तवा मिनलर्स एण्ड मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
327.	182124	मैसर्स पटेल मिनिंग एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड
328.	149031	मैसर्स अलटिबिज मनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
329.	043359	मैसर्स गोल्डविन आईस एन्ड कोल्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
330.	183575	मैसर्स समहित योगा एन्ड होलिस्टिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
331.	164275	मैसर्स सनराईज हाऊसकॉन प्राइवेट लिमिटेड
332.	201680	मैसर्स नायसा टेक्नोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड
333.	116607	मैसर्स अधिक डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
334.	186443	मैसर्स इस्वीज़ टेक्नोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड
335.	188659	मैसर्स दाना ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
336.	179921	मैसर्स रिलायंस आईल एण्ड ग्रॅस इ एन्ड पी प्राइवेट लिमिटेड
337.	177366	मैसर्स रिलायंस पेट्रो रिफायनेरी प्राइवेट लिमिटेड
338.	201304	मैसर्स रिलायंस रेसिडेंस प्राइवेट लिमिटेड
339.	157222	मैसर्स हरियाली सेज़ इन्फॉक्चर प्राइवेट लिमिटेड
340.	176744	मैसर्स रिलायंस महानंदी एक्सप्लोरेक्सन एन्ड प्रॉडक्सन प्राइवेट लिमिटेड
341.	156103	मैसर्स एवरपेम टेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
342.	165815	मैसर्स गंधधारा एंडव्हाजर्स प्राइवेट लिमिटेड
343.	118681	मैसर्स थ्री डी मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
344.	114558	मैसर्स स्पोर्ट्स नेटवर्किंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
345.	034917	मैसर्स बेक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
346.	160739	मैसर्स ट्रिबेवाल मेटल्स एण्ड मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड
347.	180429	मैसर्स अलोक औरगांबाद इन्फ्राटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
348.	191748	मैसर्स रूषभनाथ कन्स्ट्रक्सन एन्ड फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
349.	145725	मैसर्स टॉपकेअर ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
350.	181869	मैसर्स अलोक एचबी प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
351.	159037	मैसर्स पुरागनसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
352.	145659	मैसर्स हायड्रोन ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
353.	156102	मैसर्स न्यूट्री मर्कनटाईल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
354.	208757	मैसर्स भिवा हाऊसकिपींग प्राइवेट लिमिटेड
355.	180428	मैसर्स अलोक न्यू सिटी इन्फ्राटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
356.	171407	मैसर्स सविता फॉरजींग्स प्राइवेट लिमिटेड
357.	077523	मैसर्स अनविकास हुमन रिसोर्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
358.	149841	मैसर्स वरटेक्स कैरियर कॉम प्राइवेट लिमिटेड
359.	198786	मैसर्स टिविनस्टर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
360.	206796	मैसर्स आवन जेम्स प्राइवेट लिमिटेड
361.	192708	मैसर्स दीया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
362.	116951	मैसर्स श्री विष्णूचंद्र इडिबल ऑइल रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड
363.	170299	मैसर्स कोटस स्टडी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
364.	187432	मैसर्स बीयस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
365.	180349	मैसर्स प्रिवीलेज कमर्शियल कम्युनिकेशन्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
366.	180370	मैसर्स स्काइ प्रोजेक्ट डेवलापर्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
367.	202137	मैसर्स कुष इन्फॉकॉन प्रॉपर्टीज लिमिटेड
368.	023141	मैसर्स सुंदरसन्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
369.	171630	मैसर्स नेपच्यून एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
370.	185457	मैसर्स ओटाविया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
371.	192469	मैसर्स आशराना ऐग्रो डेवलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
372.	184780	मैसर्स के. बी. इन्फोस्ट्रुचर डेवलोपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
373.	135231	मैसर्स क्रिया ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड
374.	202125	मैसर्स पलक रियलटोर्स प्राइवेट लिमिटेड
375.	191365	मैसर्स हाय विला कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
376.	167849	मैसर्स मुंबई वेस्ट कॉस्ट फेरीज प्राइवेट लिमिटेड
377.	198313	मैसर्स अविरत बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
378.	191065	मैसर्स एसएनडी फॉर्मा रिसर्स एन्ड डेवलोपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
379.	156313	मैसर्स मैकिनटोस कंटेनर टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
380.	199534	मैसर्स विदर्भ टैक्स कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
381.	055888	मैसर्स क्रायजा ऐग्रो-टेक इंडस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
382.	119871	मैसर्स मेरू टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
383.	187426	मैसर्स ऊल्हास प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
384.	156149	मैसर्स इनोवबीट ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
385.	180946	मैसर्स प्रभा एडवर्टाईजिंग पुणे प्राईवेट लिमिटेड
386.	186024	मैसर्स सांघवी नैचुरल रिसोर्सेस एन्ड टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
387.	181867	मैसर्स अलोक एचबी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
388.	227201	मैसर्स इक्यूसोल इक्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
389.	178143	मैसर्स ओनिल डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
390.	160074	मैसर्स मोंगा मोटोकानो प्राईवेट लिमिटेड
391.	112658	मैसर्स बेन-फिट ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड
392.	179818	मैसर्स मोहर ज्वेलर्स लिमिटेड
393.	209745	मैसर्स धनवंत्री एक्सीटन डॉयगनोस्टीक प्राईवेट लिमिटेड
394.	186088	मैसर्स ए वन सेक्यूरिटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
395.	139098	मैसर्स बूयला हैंडीक्रॉफ्ट (एक्सपोर्ट) प्राईवेट लिमिटेड
396.	189166	मैसर्स अलियालिया फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड
397.	101898	मैसर्स मेडालियन शिपिंग ऐजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
398.	182018	मैसर्स पटेल मिनींग ऑपरेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
399.	094052	मैसर्स अमेया ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
400.	154678	मैसर्स अंतरिक्षा इंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
401.	151047	मैसर्स नमन डायमंड्स प्राईवेट लिमिटेड
402.	079677	मैसर्स व्हाइट रोज रीयल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
403.	147693	मैसर्स केनप्रो अकाउंटिंग एन्ड फाइनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
404.	184545	मैसर्स चेरीफिल्ड फैशन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
405.	203688	मैसर्स परफेक्ट मर्कनटाईल एन्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
406.	209069	मैसर्स माधव आयटी एन्ड बिपीओ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
407.	188392	मैसर्स रानीते मूनलेक एनेर्जी लिमिटेड
408.	124628	मैसर्स रोकान इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
409.	209060	मैसर्स राधाकृष्णा आयटी एन्ड बिपीओ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
410.	136871	मैसर्स लेगेसी गोल्ड प्राईवेट लिमिटेड

पद्मावती बालाकृष्ण
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गोवा ड्रीम होम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 4 मार्च 2013

सं. 28920411/1624--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोवा ड्रीम होम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

सुधीर लीलाधर फाये
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 14 मार्च 2013

सं. आरओसी/560 (5) 4535--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	009876	मैसर्स जीवनकुलियन रियल इस्टेट एन्ड कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
2.	0101364	मैसर्स ट्रीडेन्ट इन्फोमेट्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	008184	मैसर्स आय आग्री इनटेटीव प्राईवेट लिमिटेड
4.	008262	मैसर्स सारामती मारकैन्टल प्राईवेट लिमिटेड
5.	008260	मैसर्स सारामती कर्मिशियल प्राईवेट लिमिटेड
6.	008261	मैसर्स हिल्स इस्टार कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	1806	मैसर्स आसम प्रोलीमर्स एलएलपी प्राईवेट लिमिटेड

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 8th March 2013

No. A-60011/03/2013-RTI Cell (Admn.)—It terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Union Public Service Commission are hereby designated as Central Public Information Officers in respect of subject matters mentioned below, with immediate effect :—

Sl. No.	Subject matter	Name of the CPIO	Name of the Appellate Authority
1.	All RTI matters pertaining to R-VI Section	Ms. Indrani Gupta, Deputy Secretary (R-VI)	Ms. Manju Kumar, Joint Secretary (R-II)
2.	All RTI matters pertaining to RA (IFC).	Sh. Anshuman Sharma, Deputy Secretary, RA (IFC)	Ms. Manju Kumar, Joint Secretary (R-II)

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 12th March 2013

No. DPPERS.I/2013/0026/3/156/2010—Shri A. K. Tripathi relinquished the charge of the post of Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 28.02.2013 on superannuation.

MANISH K. SINHA
Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 8th March 2013

No. P.III/2012-Pers(A/C)—Consequent on expiry of one month period from the date on which Notice for Invalidation from Service on Medical grounds served upon Shri Anuj Kumar Singh, Asstt. Commandant (IRLA-7584) of GC, CRPF, Allahabad vide this Directorate Notice of even number dated 16.01.2013, he relinquished the charge of his post on the afternoon of 19.02.2013. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 19.02.2013 (AN).

B. S. CHAUHAN
DIG (Pers)

No. O.II-1175/74-Pers-DA-I—Regret to notify that Shri Gopal Dass Pewal, Inspector General (Prov.), Directorate General, C.R.P.F., New Delhi (IRLA : 1269), who was a case of “Drug Induced Hepatic Failure”, expired on 06.03.2013 while under treatment at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from the same date i.e. 06.03.2013 (AN).

B. S. CHAUHAN
DIG (Pers)

No. O.II-3681/06-Pers(MOs)—Dr. P. R. Kushwaha, Senior Medical Officer (IRLA : 6722), of Composite Hospital, CRPF, Allahabad who was suffering from Buccal Carcinoma expired on 03.01.2013 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force from 03.01.2013 (AN).

B. S. CHAUHAN
DIG (Pers)

The 11th March 2013

No. D.V-1/2013-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 17.08.2012 for Resignation from service, Shri Pritam Singh, Assistant Commandant (IRLA-7141) of PDG, CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 31.01.2013. Accordingly, he has been struck off from the strength of this department with effect from the same date i.e. 31.01.2013 (AN).

B. S. CHAUHAN
DIG (Pers)

No. D.V-1/2013-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 20.10.2012 for Resignation from service, Shri Manish Kumar, Assistant Commandant (IRLA-7961) of 22 Bn, CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 28.02.2013. Accordingly, he has been struck off from the strength of this department with effect from the same date i.e. 28.02.2013 (AN).

B. S. CHAUHAN
DIG (Pers)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 11th March 2013

No. E-16015/TV-IPS/2013/Pers-I/95—The President is pleased to appoint Shri T. Vikram, IPS (KL : 1998) as Deputy Inspector General, in Central Industrial Security Force, New Delhi with effect from the forenoon of 04.03.2013 in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000) with Grade Pay of Rs. 8,900/-.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 13th March 2013

No. E-32015(4)/1/AC-LDCE-2012/Pers.I/100—The President is pleased to appoint the following officers as Assistant Commandant/Exe (Group 'A') in CISF through AC(LDCE) Limited Departmental Competitive Examination 2012 with effect from the date of reporting at CISF NISA Hyderabad for undergoing basic training in 07th Batch as per the details given below. The salary of these officers will be drawn by the respective training institution i.e. CISF NISA Hyderabad during the period of basic training with effect from the date of reporting at the institution :—

Sl. No.	Name (S/Shri)	Name of the Institution/place of posting	Date of Joining
1.	Ravi Ranjan Singh	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
2.	Raj Kumar	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
3.	Manish Kumar	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
4.	Dinesh Kumar	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
5.	Brij Mohan Singh	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
6.	Abhishek Ahuja	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
7.	Rajesh Kumar Dayal	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
8.	Umesh Kumar Gautam	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
9.	Manish Chandra Jha	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
10.	Banwari Lal Jat	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
11.	Jaganmoy Som	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
12.	Vinay Kumar Singh	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
13.	Rakesh Chandan	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
14.	Kadam Rupesh Madhukar	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
15.	Prem M. J.	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)
16.	Naresh Joshi	NISA Hyderabad	16.02.2013 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 12th March 2013

No. 1/38/2012-Ad-III/190—Consequent upon his promotion from Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS) to the Selection Grade (Deputy Secretary) on ad hoc basis vide Order No. 4/14/2011-CS-1 (D) dated 12.11.2012, the President is pleased to appoint Shri Bimal Kujur as Deputy Secretary in Office of the Registrar General, India on ad hoc basis w.e.f. 23.11.2012 (FN) and until further orders.

RAM GOPAL
Under Secy.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110124, the 8th March 2013

No. 1070-GE-I/13-2006—Shri R. Balasubramanian, IA&AS officer has retired on superannuation from Government service w.e.f. 28.02.2013 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE
Asstt. Comptr. &
Auditor General (P)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 13th March 2013

No. O.E./E&C/EIVP/000384—The following officials of IA&AD retired from service :—

Name	Designation	Date of retirement
Smt. Suseela Kumari Amma P.	Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	28.02.2013 (Superannuation)

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (A&E), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 13th March 2013

No. Admn-I/U-I/4-39/2012-13/67074—The Principal Accountant General (A&E), A.P., Hyderabad is pleased to

promote the undermentioned Accounts Officer to officiate as Sr. Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the date shown against his name :—

Name	Date of assumption of charge as Sr. A.O.
Sri K. Srinivasa Prasad	13.02.2013 (FN)

The promotions ordered are without prejudice to the claims of his seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

HEMA
Sr. Dy. Accountant General
(Admn.)

No. Admn-I/U-I/8-88/2012-13/67074—The Principal Accountant General (A&E), A.P., Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the date shown against his name :—

Name	Date of assumption of Charge as A.O.
Sh. B. Trinadha Rao	14.02.2013 (FN)

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

HEMA
Sr. Dy. Accountant General
(Admn.)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(SUPPLY DIVISION)

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND
DISPOSALS

New Delhi-110001, the 18th March 2013

No. A-12025/2/2013-A.I.—The President is pleased to appoint the following candidates in the grade of Assistant Director of Supplies (Grade-I) of Indian Supply Service in PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in an officiating capacity on the recommendations of Union Public Service Commission and as per respective offer of appoint-

ment issued by Directorate General of Supplies and Disposals as under till further orders :—

Sl. No.	Name	Engineering Services Examination-Year	Date from which appointed to the post of Assistant Director (Supplies) (Grade-I)
(S/Shri)			
1.	Ambuj Sharma	2008	05.04.2010
2.	Raj Kamal	2008	07.05.2010
3.	Koottil Variam Ajith	2008	02.06.2010
4.	Deepesh Gehlot	2009	08.04.2011
5.	Lakshman Rao Athukuri	2010	12.03.2012
6.	Ullas Kumar	2011	18.01.2013
7.	Sarvesh Trivedi	2011	21.01.2013
8.	Anuj Ojha	2011	21.01.2013
9.	Mukesh Meghwal	2011	21.01.2013
10.	Vijay Kumar Meena	2011	21.01.2013
11.	Ram Niwas	2011	26.02.2013

They will be initially on probation for two years.

K. K. SAXENA
Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)

DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION,
QUARANTINE & STORAGE

Faridabad-121001, the 4th March 2013

No. 2-5/2008-Adm.I—The Plant Protection Adviser is pleased to appoint Dr. S. Sivarama Krishnan to the post of Plant Protection Officer (Entomology) (Group 'B' Gazetted) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- on regular basis in this Directorate with effect from 24.09.2012 (FN).

DILEEP RAO
Chief Administrative Officer

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 8th March 2013

No. PD/7(4)/2012-R-IV/SO(E)/3027—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Teena Goel, Scientific Officer/Engineer Grade 'D' Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'E' Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- in the same

Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2011, in an officiating capacity until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

The 11th March 2013

No. PD/6(1)/2012-R-III/2013/3075—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Babu Rajan P. V., Assistant, RMP, Mysore to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 04.03.2013 on regular basis until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai-400094, the 12th March 2013

No. DPS/07019/Rectt./16415—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints Smt. V. M. Morudkar, Sr. Storekeeper [Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,200/-], Central Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Mumbai, as Assistant Stores Officer in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in the Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Heavy Water Plant, Kota, w.e.f. the forenoon of 27th February, 2013 until further orders.

CATHERINE RAJ
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Chetan Genthe and Co. Private Limited

New Delhi-110019, the 12th March 2013

No. u/s 560(5)/MCA/Roc-Delhi/26646—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chetan Genthe and Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Jaipur-302001, the 15th March 2013

No. ROC/Rajasthan/560(5)EES&FTE/353—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	010056	M/s. V. S. Leisure Private Limited
2.	023831	M/s. Suncity Homecraft Furnishing Private Limited
3.	034487	M/s. Shree Mahaveer Critical Care Private Limited
4.	025688	M/s. Sunita Education Private Limited
5.	026042	M/s. Vanrasa Lifestyle Buildcon Private Limited
6.	024164	M/s. Dev Kripa Housing Private Limited
7.	032012	M/s. Prosperr Logistix (India) Private Limited
8.	028336	M/s. Titanium Info Tech Private Limited
9.	024793	M/s. Shree Ganesh Kripa Consultancy Services Private Limited
10.	029580	M/s. Anantshree Trademart Private Limited
11.	035033	M/s. Rajputana Coatings Private Limited
12.	026010	M/s. Varun Logistic Private Limited
13.	011443	M/s. Pareek Ice Factory Private Limited
14.	023067	M/s. Suvigyanm Engineering and Cad Solutions Private Limited
15.	024382	M/s. Shrinath Propcon Private Limited
16.	022848	M/s. Sradha Impex Private Limited
17.	030240	M/s. Svastic Pyramid Marketing Private Limited

IMRAN A. SIDDIQUI
Asstt. Registrar of Companies
Cum-Asstt. Official Liquidator, Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Mumbai-400002, the 15th March 2013

No. ROC/FTE-2011/560(5)/3388—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have

this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	008837	M/s. Iron Steel and Hardware Trade Welfare Trust Private Limited
2.	205795	M/s. Perfect Polypack Private Limited
3.	019663	M/s. Prepac Packaging Systems Private Limited
4.	173173	M/s. Craft Mercantile Private Limited
5.	120463	M/s. Vaivi Exports Private Limited
6.	180315	M/s. Senta Projects Developers Private Limited
7.	194466	M/s. Mangogi Financial Services Private Limited
8.	126717	M/s. Connect Capital India Holdings Private Limited
9.	155058	M/s. Raj Ice and Cold Storage Private Limited
10.	33759	M/s. Jain Corporate Services Private Limited
11.	187908	M/s. Adam Advisory Services Private Limited
12.	184293	M/s. Ideavent Consultants Private Limited
13.	149936	M/s. Aliens Impex Private Limited
14.	026590	M/s. BCA Enterprises Private Limited
15.	193694	M/s. Agappe Bio-Systems Private Limited
16.	187041	M/s. DNG Shree Films Private Limited
17.	145717	M/s. Bharatiyer Holdings Services Private Limited
18.	149935	M/s. Aliens Properties Private Limited
19.	116071	M/s. Landmark Shipping Private Limited
20.	186514	M/s. USR Technology (India) Private Limited
21.	204610	M/s. Avio India Private Limited
22.	150696	M/s. Technoclean Hydrojet Systems (India) Private Limited
23.	90182	M/s. D and A Management Services Private Limited
24.	195911	M/s. I Can Nano Marketing Private Limited
25.	195969	M/s. Otrrodime Technologies Private Limited

1	2	3
26.	2044	M/s. The Bombay Associated Newspapers Private Limited
27.	167059	M/s. Ares Infradevelopers Private Limited
28.	110792	M/s. Vidya Engineering Services Private Limited
29.	127509	M/s. Shoguns Healthcare Limited
30.	186428	M/s. Mother Graphic Solutions Private Limited
31.	197366	M/s. Essar Telecom Tower Holdings Limited
32.	188128	M/s. I Consultech Data Management Private Limited
33.	180126	M/s. Realiable Colour and Strockes Private Limited
34.	176873	M/s. Vinimay Merchandising Company Private Limited
35.	132707	M/s. Ajax Knowledge Systems Private Limited
36.	178687	M/s. Magic Jewellery Private Limited
37.	174441	M/s. Aqua Alliances Marketing (India) Private Limited
38.	178537	M/s. IDEA Management and Financial Consultants Private Limited
39.	183185	M/s. Trogoni Trading Private Limited
40.	176693	M/s. Seaview Multitrade Company Private Limited
41.	055664	M/s. Halo Video Private Limited
42.	148702	M/s. Petabit Engineering Private Limited
43.	182505	M/s. Mantra Medical Solutions Private Limited
44.	187226	M/s. Apeksha Infrastructure Private Limited
45.	166822	M/s. Terminus Realcon Private Limited
46.	194666	M/s. Seaways Metasource Private Limited
47.	128470	M/s. Unitech Information Systems Private Limited
48.	188092	M/s. Wasan Regidency Nashik Private Limited
49.	181819	M/s. Jukebox Marine Services Private Limited
50.	091915	M/s. Solar Machine Tools India Private Limited
51.	183085	M/s. P. D. Estate Private Limited

1	2	3
52.	192946	M/s. Bacchus Entertainment (India) Private Limited
53.	189187	M/s. HP Prosares (India) Private Limited
54.	204897	M/s. Waluj Integrated Infrastructure Private Limited
55.	204893	M/s. Latur Integrated Infrastructure Private Limited
56.	164609	M/s. Roshmit Enterprise Private Limited
57.	021305	M/s. Indals (Agencies) Private Limited
58.	182111	M/s. Aksh Corporate Research and Information Private Limited
59.	082491	M/s. Onyx Travels and Tours Private Limited
60.	157831	M/s. Sagar Facilities Management Private Limited
61.	101951	M/s. MC Clelland Enviro Infrastructure Private Limited
62.	174458	M/s. Bhavani Express Private Limited
63.	208135	M/s. Fastrackids India Private Limited
64.	140112	M/s. Sai Raj Infosoft Private Limited
65.	064434	M/s. Ankur Graphics and Advertising Private Limited
66.	186813	M/s. Astral Composites Private Limited
67.	157313	M/s. Acts Softtech Private Limited
68.	092140	M/s. VSL Systems and Controls Private Limited
69.	156475	M/s. Trimatee Visuals Private Limited
70.	162922	M/s. Pranav Ruchika Infrastructures Private Limited
71.	204896	M/s. Taloja Integrated Infrastructure Private Limited
72.	174369	M/s. Handset Gems Private Limited
73.	180805	M/s. Sanghavi Airlines Private Limited
74.	165195	M/s. E-Citi Township Developers Private Limited
75.	188560	M/s. HP Enviro Care Private Limited
76.	186232	M/s. K Real Softtech Private Limited
77.	177597	M/s. Spacecom Innovations Private Limited
78.	185093	M/s. Akul Commercial Private Limited
79.	189084	M/s. Oceanic Space Private Limited

1	2	3
80.	003895	M/s. Bombay Trading and Financing Corporation Private Limited
81.	189480	M/s. Microspace Constructions Private Limited
82.	079493	M/s. Geeta Safe Deposit Vaults Private Limited
83.	168747	M/s. Reliance Biofuels Private Limited
84.	166971	M/s. Eisha Constructions Private Limited
85.	183434	M/s. Fortilab (India) Private Limited
86.	166911	M/s. Efficient Commercial Private Limited
87.	195510	M/s. C-Z Cranes & Handling Equipments Private Limited
88.	168750	M/s. Reliance Diagnostics Private Limited
89.	076747	M/s. Simba Tours and Travels Private Limited
90.	188205	M/s. Managed Services Environment Private Limited
91.	176694	M/s. Skyview Trading Company Private Limited
92.	063964	M/s. Kelkar Plastics Private Limited
93.	137494	M/s. Bhawe Properties Private Limited
94.	211582	M/s. Fedex Express Surface Distribution Services (India) Private Limited
95.	111401	M/s. Shefali Pharma Private Limited
96.	084885	M/s. Om Hospital for Sick Children Private Limited
97.	076948	M/s. Neki Systems Private Limited
98.	142840	M/s. Mali Media and Entertainment Private Limited
99.	123247	M/s. Astra Insurance Services Private Limited
100.	139284	M/s. Fabulous Fashions Private Limited
101.	056951	M/s. Nutan Yarn Twisters Private Limited
102.	162938	M/s. Dumas Mining India Private Limited
103.	159240	M/s. Rev Heal Phytochem Private Limited
104.	109426	M/s. Zenka Exim Private Limited
105.	190665	M/s. Arvinder Resorts and Spas Private Limited
106.	182452	M/s. Izaioo Entertainment Private Limited
107.	059853	M/s. Big Guy Courier Private Limited
108.	123803	M/s. Motech Software Private Limited

1	2	3
109.	171562	M/s. Tikona Digital Holdings Private Limited
110.	196734	M/s. Age Oceanlines Private Limited
111.	080516	M/s. Nagpur Cable Vision Private Limited
112.	113029	M/s. Hexa Pharma Private Limited
113.	073110	M/s. Sharmigro Financial and Management Consultants Private Limited
114.	176700	M/s. Om Pile Corporate Service Private Limited
115.	170763	M/s. ING Knowledge Services Private Limited
116.	187323	M/s. Manan Amity Realtors Private Limited
117.	164934	M/s. Svizera Pharmatech Private Limited
118.	042651	M/s. Vinayak Land Developers Private Limited
119.	209872	M/s. Tisya Asset and Leasing Private Limited
120.	187994	M/s. Proton Plan Private Limited
121.	109462	M/s. Rushi Healthcare Private Limited
122.	093232	M/s. Bestlink Fintrade and Investment Private Limited
123.	078638	M/s. Balani Exports Private Limited
124.	170966	M/s. Essar Power Chhattisgarh Limited
125.	192195	M/s. M. & M. Metroflex Gym Private Limited
126.	172449	M/s. Basant Mercantile Private Limited
127.	205880	M/s. Roshni Energy Private Limited
128.	174621	M/s. Shipco Logistics Private Limited
129.	203929	M/s. Designsutra Advertising Private Limited
130.	156676	M/s. I. S. K. Trading Company Private Limited
131.	211727	M/s. Phocuswright Asia Pacific Research and Developers Private Limited
132.	100086	M/s. Tapsaya Design Company Private Limited
133.	173127	M/s. Real Transportation Infrastructure Private Limited
134.	100989	M/s. Advanced Fibre Communications (India) Private Limited

1	2	3
135.	166446	M/s. Reliance Logistics Park (Mumbai) Private Limited
136.	172448	M/s. Aakar Mercantile Private Limited
137.	171359	M/s. Truman Guards Private Limited
138.	166447	M/s. Reliance Logistic Park (Haryana) Private Limited
139.	161582	M/s. Sanghavi Star Jewellery Private Limited
140.	171303	M/s. Modern India Reality and Infrastructures Private Limited
141.	146850	M/s. HTC Exports Private Limited
142.	013434	M/s. Parsons Agencies Private Limited
143.	137905	M/s. Great Circle Advisors Private Limited
144.	116833	M/s. Admas Hotel Private Limited
145.	177102	M/s. Infinity Clothing Private Limited
146.	188776	M/s. Parleshwar Foods Private Limited
147.	172279	M/s. Diwakar Multitrade Private Limited
148.	184081	M/s. Princetony Blue Technology Private Limited
149.	168806	M/s. Urban Business Management Private Limited
150.	026736	M/s. Neelam Hotels Private Limited
151.	162757	M/s. Midwave IT Solutions Private Limited
152.	049177	M/s. Deccan Nylon Private Limited
153.	127477	M/s. Rosa Power Infrastructure Private Limited
154.	165598	M/s. TCQ Triangle Consultants Private Limited
155.	016085	M/s. Vishal Electronics Private Limited
156.	002778	M/s. Karnad and Bellare Limited
157.	176678	M/s. Ventura Institutional Equities Private Limited
158.	071782	M/s. Hi-Tech Modular Systems (India) Private Limited
159.	164401	M/s. Coopsol Financial Technologies Private Limited
160.	175416	M/s. Arteries Insurance Broking Limited
161.	124365	M/s. Reliable Power and Energy Resources Private Limited
162.	197055	M/s. Lifestyle Beverages Private Limited

1	2	3	1	2	3
163.	175392	M/s. Sayi Financial Services Private Limited	192.	185020	M/s. Starlet Textile Private Limited
164.	165019	M/s. Greenary Power Generation Private Limited	193.	118617	M/s. South Asia Marine Services Private Limited
165.	158323	M/s. Urban Infrastructurer Properties Private Limited	194.	152069	M/s. Sanjay Coaching Private Limited
166.	165464	M/s. Urban Telecom Private Limited	195.	124214	M/s. Zion Technologies and Services (India) Private Limited
167.	047446	M/s. Aarkay Green Valley Hills Private Limited	196.	165606	M/s. Matruashish Land Infrastructure Limited
168.	121683	M/s. Alpine Media and Entertainment Private Limited	197.	201492	M/s. Reliance Housing Private Limited
169.	034876	M/s. Surana Transport (Bombay) Private Limited	198.	027841	M/s. Amishef Investment Private Limited
170.	096643	M/s. Canadian Pure Beverages Private Limited	199.	177173	M/s. Reliance Solar Systems Private Limited
171.	119504	M/s. Asia Vision Entertainment Private Limited	200.	041963	M/s. Futex Steel Industries Private Limited
172.	024523	M/s. MA Shri Karni Exports Private Limited	201.	057643	M/s. Lake Wood Construction Company Private Limited
173.	167530	M/s. Three's Picture Company Private Limited	202.	177171	M/s. Reliance Photo Voltaic Private Limited
174.	157269	M/s. Urban Sez Private Limited	203.	201454	M/s. Reliance Cities Private Limited
175.	127495	M/s. Industrial Distrigas Private Limited	204.	186457	M/s. Skyblue Textile Private Limited
176.	128669	M/s. Hitechclub.com (India) Private Limited	205.	184967	M/s. Pinky Textile Private Limited
177.	178356	M/s. Hi-Designs Software Private Limited	206.	135636	M/s. C. K. Shelters (India) Private Limited
178.	185057	M/s. Padman Commercial Private Limited	207.	177099	M/s. Sindhudurg Sez Private Limited
179.	184992	M/s. Lifestyle Textile Private Limited	208.	157232	M/s. Urban Sez Infrastructure Private Limited
180.	186340	M/s. Metro Textile Private Limited	209.	183799	M/s. Sofinter Power Private Limited
181.	201251	M/s. Reliance Ghar Private Limited	210.	080760	M/s. Daman Ganga Petrochemicals Private Limited
182.	090851	M/s. Hilland Estates Limited	211.	163569	M/s. JMV Study Overseas Private Limited
183.	177174	M/s. Reliance Solar Private Limited	212.	181734	M/s. VSA Financial Consulting and Advisory Private Limited
184.	134686	M/s. Sangha Infotech Private Limited	213.	212714	M/s. Inspiration Cafe Private Limited
185.	184993	M/s. Ensure Textile Private Limited	214.	187428	M/s. Chenab Properties Private Limited
186.	201341	M/s. Reliance Habitat Private Limited	215.	111139	M/s. Sai Flowers and Blooms Private Limited
187.	201508	M/s. Reliance Ashraya Private Limited	216.	190892	M/s. Ekdanta Technology Applications Private Limited
188.	065128	M/s. Tech 1 AV Private Limited	217.	164819	M/s. Urban Assets Re-construction Company Private Limited
189.	184994	M/s. Rural Textiles Private Limited	218.	074593	M/s. Prince Realtors Private Limited
190.	177172	M/s. Reliance Polysilicon Private Limited	219.	181974	M/s. Orean Art-Tex Private Limited
191.	187505	M/s. Film Tree Motion Pictures Private Limited			

1	2	3
220.	157017	M/s. B.A. Trading Company Private Limited
221.	213244	M/s. Divyasubh Realtech Private Limited
222.	136771	M/s. Wandering Travels Private Limited
223.	063947	M/s. Triton Rural Marketing Private Limited
224.	166496	M/s. Onelus Auto Security Private Limited
225.	182837	M/s. Como-Furnitures Private Limited
226.	190490	M/s. Dickenson Media Private Limited
227.	187637	M/s. Parbati Properties Private Limited
228.	132881	M/s. Autocop Wheels Appliances Private Limited
229.	193890	M/s. Aditi Wealth Management Private Limited
230.	133106	M/s. Dumaire Exports Private Limited
231.	075108	M/s. Navrang Premises Private Limited
232.	212954	M/s. Saifee Educational Services Private Limited
233.	183418	M/s. Wecare Elevator and Engineering Company Private Limited
234.	172879	M/s. Urban Developer and Infrastructure Private Limited
235.	163256	M/s. Thane Belapur Industries Power Private Limited
236.	101075	M/s. Girish Builders and Developers Private Limited
237.	200026	M/s. Nishe Cards Private Limited
238.	169505	M/s. Rajda and Tejal Exports Private Limited
239.	179794	M/s. Moneytalk Advisory Private Limited
240.	185527	M/s. Sunwind Textile Private Limited
241.	187438	M/s. Tapti Premises Private Limited
242.	183287	M/s. Sarth Technology Private Limited
243.	103735	M/s. Ancos Writing Instrument Private Limited
244.	155739	M/s. Cardio-Rythm Medical Devices Private Limited
245.	205519	M/s. Helios Energy Private Limited
246.	168698	M/s. Spectra Power Distribution Private Limited
247.	216826	M/s. Travworld Tourism Private Limited

1	2	3
248.	142371	M/s. Bandra West Productions Private Limited
249.	182109	M/s. Classic Terrain Developers Private Limited
250.	181947	M/s. Nisham Industrial Complex Private Limited
251.	085325	M/s. Espee La-Mode Homes Private Limited
252.	155477	M/s. R. Paresh Exim Private Limited
253.	065721	M/s. Viking Video Productions Private Limited
254.	115317	M/s. Anish Leisure and Sports Tours Private Limited
255.	176753	M/s. Uday Quarry Works Private Limited
256.	185410	M/s. Urban Integrated Textile Park Private Limited
257.	161329	M/s. Sunrise Interiors Private Limited
258.	105049	M/s. Wind River Farms Private Limited
259.	026547	M/s. Vaidya and Vaidya Traders Private Limited
260.	185041	M/s. Ikshu Trading Private Limited
261.	159721	M/s. Exotic Garments Private Limited
262.	063666	M/s. White feild Electro Mechanical Industries Private Limitedss
263.	185412	M/s. Oorjit Commercial Private Limited
264.	030457	M/s. Sar Liquors Private Limited
265.	037960	M/s. Trident Modular Technologies Private Limited
266.	179377	M/s. Subhgami Trading Private Limited
267.	161330	M/s. Acme Tea Rooms Company Private Limited
268.	161331	M/s. Sunrise Furniture Private Limited
269.	187488	M/s. Tellect Power Private Limited
270.	197056	M/s. Top Vigil Security Private Limited
271.	205494	M/s. Ultra Energy Private Limited
272.	196980	M/s. Twomi Retail Private Limited
273.	172735	M/s. Mumbai Transport Infrastructure Private Limited
274.	178001	M/s. Ratnakalash Commercial Private Limited

1	2	3	1	2	3
275.	097309	M/s. Sushrusa Health Services Private Limited	304.	182475	M/s. Nirman Shree Prakash Creations Private Limited
276.	050038	M/s. Ashok Pawar Architects Private Limited	305.	047558	M/s. Rajnikant Construction Private Limited
277.	166098	M/s. Reliance Upstream Private Limited	306.	155704	M/s. Voyager Equity Advisors Private Limited
278.	184990	M/s. Seashore Textile Private Limited	307.	172503	M/s. Bluesky Jewellery Private Limited
279.	185400	M/s. Bhadraksh Commercial Private Limited	308.	182949	M/s. Meal O Wheel Private Limited
280.	159700	M/s. Caden Design Solutions Private Limited	309.	176734	M/s. Reliance Cauvery Exploration & Production Private Limited
281.	116205	M/s. N. V. Valves Private Limited	310.	185327	M/s. Yayin Trading Private Limited
282.	187427	M/s. Wardha Properties Private Limited	311.	035077	M/s. Sanzgiri Consultants Private Limited
283.	198966	M/s. Jai Swaminarayan Restaurants Private Limited	312.	187121	M/s. Think Ahead Trading Private Limited
284.	146581	M/s. Meghram Agro Trading Private Limited	313.	158839	M/s. Vikas Gaitonde Design Private Limited
285.	173209	M/s. Adon Proactive Advertising Private Limited	314.	156749	M/s. Progressive Staffing Services Private Limited
286.	203478	M/s. Efatar HDIL India Private Limited	315.	166918	M/s. Jineshwer Realtor Private Limited
287.	173499	M/s. Utility Reality Farms Private Limited	316.	168260	M/s. Chintamani Constructions and Farms Private Limited
288.	182992	M/s. Green Valley Agriculture Private Limited	317.	164293	M/s. Jineshwer Builders Private Limited
289.	194907	M/s. Nirvan Builders Private Limited	318.	190027	M/s. Novel Interior Designers Private Limited
290.	173905	M/s. Deccan Wind Energy Private Limited	319.	137579	M/s. Freight Lines (International) Private Limited
291.	081731	M/s. Line-X-Port International Limited	320.	162611	M/s. Ecstasy Realtors Private Limited
292.	124063	M/s. Neo Detatech Infovision Private Limited	321.	191565	M/s. Iprova Labs Private Limited
293.	181382	M/s. Femcell Limited	322.	167100	M/s. Ghunjwada Silicon Chemicals Private Limited
294.	206930	M/s. Jupiter Offshore India Private Limited	323.	179379	M/s. Vishvamukh Trading Private Limited
295.	137042	M/s. GDR Impex Private Limited	324.	208899	M/s. Aaditya Jewel Private Limited
296.	022505	M/s. Gidwani Silk Mills Private Limited	325.	188293	M/s. Yashita Exim Private Limited
297.	178995	M/s. Shrivastava Minerals and Metals Private Limited	326.	168451	M/s. Lodha Build Creation Private Limited
298.	213260	M/s. AMS Gogreen Private Limited	327.	182124	M/s. Patel Mining Assignment Private Limited
299.	184450	M/s. Dhule Critical Care and Trauma Center Private Limited	328.	149031	M/s. Ultibiz Management Solutions Private Limited
300.	173463	M/s. Dharmanath Infra and Agro Private Limited	329.	043359	M/s. Goldwin Ice and Cold Products Private Limited
301.	034720	M/s. Secu Pharma Private Limited	330.	183575	M/s. Samhit Yoga and Holistic Health Private Limited
302.	160156	M/s. CNS Trade Links Private Limited	331.	164275	M/s. Sunrise Housecon Private Limited
303.	182705	M/s. Ambeshwari Buildtech and Farms Private Limited			

1	2	3
332.	201680	M/s. Naysa Technologies Private Limited
333.	116607	M/s. Adhik Distributors Private Limited
334.	186443	M/s. Exitz Technologies Private Limited
335.	188659	M/s. Dana Automobiles Private Limited
336.	179921	M/s. Reliance Oil and Gas E & P Private Limited
337.	177366	M/s. Reliance Petro Refinery Private Limited
338.	201304	M/s. Reliance Residence Private Limited
339.	157222	M/s. Hariyali Sez Infrastructure Private Limited
340.	176744	M/s. Reliance Mahanadi Exploration & Production Private Limited
341.	156103	M/s. Everfame Trading Company Private Limited
342.	165815	M/s. Gandhara Advisors Private Limited
343.	118681	M/s. Three D Marketing Services Private Limited
344.	114558	M/s. Spider Networking (India) Private Limited
345.	034917	M/s. Beck Construction Company Private Limited
346.	160739	M/s. Tibrewal Metals and Minerals Private Limited
347.	180429	M/s. Alok Aurangabad Infratex Private Limited
348.	191748	M/s. Rushabh Nath Constructions & Farms Private Limited
349.	145725	M/s. Topcare Trading Company Private Limited
350.	181869	M/s. Alok HB Properties Private Limited
351.	159037	M/s. Puragansoft Private Limited
352.	145659	M/s. Highzone Trading Company Private Limited
353.	156102	M/s. Newtree Mercantile Company Private Limited
354.	208757	M/s. Bhiva Housekeeping Private Limited
355.	180428	M/s. Alok New City Infratex Private Limited
356.	171407	M/s. Savita Forgings Private Limited
357.	077523	M/s. Anviksha Human Resource Services Private Limited
358.	149841	M/s. Vertex Career . Com Private Limited

1	2	3
359.	198786	M/s. Twinstar Buildcon Private Limited
360.	206796	M/s. Aahvan Gems Private Limited
361.	192708	M/s. Diya Sales Private Limited
362.	116951	M/s. Sri Vishnuchandra Edible Oil Refineries Private Limited
363.	170299	M/s. Kotas Study Centre Private Limited
364.	187432	M/s. Beas Properties Private Limited
365.	180349	M/s. Privilege Commercial Communications Private Limited
366.	180370	M/s. Skye Project Developers Private Limited
367.	202137	M/s. Kush Infracore Private Limited
368.	023141	M/s. Sundarsons Electronics Limited
369.	171630	M/s. Neptune Energy Private Limited
370.	185457	M/s. Octavia Commercial Private Limited
371.	192469	M/s. Ashrana Agro Developers Private Limited
372.	184780	M/s. K. B. Infrastructure Development Private Limited
373.	135231	M/s. Cria Jewellery Private Limited
374.	202125	M/s. Palak Realtors Private Limited
375.	191365	M/s. High Villa Constructions & Farms Private Limited
376.	167849	M/s. Mumbai West Coast Ferries Private Limited
377.	198313	M/s. Avirat Builders Private Limited
378.	191065	M/s. SND Pharma Research & Development Private Limited
379.	156313	M/s. Mackintosh Container Terminals Private Limited
380.	199534	M/s. Vidarbha Tax Consultants Private Limited
381.	055888	M/s. Kyza Agro-Tech Industries Private Limited
382.	119871	M/s. Meroo Textiles Private Limited
383.	187426	M/s. Ulhas Properties Private Limited
384.	156149	M/s. Inorbit Trading Company Private Limited
385.	180946	M/s. Prabha Advertising Pune Private Limited
386.	186024	M/s. Sanghavi Natural Resources & Technologies Private Limited
387.	181867	M/s. Alok HB Hotels Private Limited
388.	227201	M/s. Equisol Equitec Private Limited

1	2	3
389.	178143	M/s. Onil Development Private Limited
390.	160074	M/s. Monga Motocono Private Limited
391.	112658	M/s. Ben-Fit Jewellery Private Limited
392.	179818	M/s. Mohar Jewels Limited
393.	209745	M/s. Dhanvantri Xcyton Diagnostic Private Limited
394.	186088	M/s. A One Security Solutions Private Limited
395.	139098	M/s. Butala Handicraft (Exports) Private Limited
396.	189166	M/s. Alitalia Fashions Private Limited
397.	101898	M/s. Medallion Shipping Agency Private Limited
398.	182018	M/s. Patel Mining Operations Private Limited
399.	094052	M/s. Ameya Auto Private Limited
400.	154678	M/s. Antriksha Entertainment Private Limited
401.	151047	M/s. Naman Diamonds Private Limited
402.	079677	M/s. White Rose Real Estate Private Limited
403.	147693	M/s. Kenpro Accounting and Financial Services Private Limited
404.	184545	M/s. Cherryfield Fashions India Private Limited
405.	203688	M/s. Perfect Mercantile & Services Private Limited
406.	209069	M/s. Madhav IT and BPO Services Private Limited
407.	188392	M/s. Ranite Moonlake Energy Limited
408.	124628	M/s. Rokaan Investments Private Limited
409.	209060	M/s. Radhakrishna IT and BPO Services Private Limited
410.	136871	M/s. Legacy Gold Private Limited

PADMAVATHI BALAKRISHNAN
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Goa Dream Homes Private Limited

Panaji-403001, the 4th March 2013

No. 28920411/1624—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goa Dream Homes Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SUDHIR LILADHAR PHAYE
Asstt. Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Shillong-793001, the 14th March 2013

No. RoC/SH/560(5)/2013—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of below mentioned Companies have this day been struck off from the Registrar and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	009876	M/s. Jeevankalyan Real Estate and Construction Limited
2.	010364	M/s. Trident Infomatirix Private Limited
3.	008184	M/s. Aai Agro Initiative Private Limited
4.	008262	M/s. Saramati Mercantile Private Limited
5.	008260	M/s. Saramati Commercial Private Limited
6.	008261	M/s. Hillstar Constructions Private Limited
7.	AAA-1806	M/s. Assam Polymers-LLP

G. C. YADAV
Registrar of Companies
N. E. Region

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013